

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 4—अक्टूबर 10, 2014 (आश्विन 12, 1936)

No. 40] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 4—OCTOBER 10, 2014 (ASVINA 12, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

संसदीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 जून 2014

सं.3(3)/2014-प्रशासन--डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम, भा.प्र.से. (यू.एल: 2004) को दिनांक 26.06.2014 से (वेतन बैंड-3 रु.15,600—39,100/- + ग्रेड वेतन रु.7,600/- में) उप सचिव के स्तर पर संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैया नायडु) के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है।

2. यह नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए या मंत्री के कार्यकाल के सहावसानी है या जब तक वे मंत्री के निजी सचिव के रूप में कार्य करना बंद नहीं कर देते तब तक या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए होगी।

रामेश्वर प्रसाद, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 18 जुलाई 2014

सं. फा. 3(6)/2012-प्रशासन—राष्ट्रपति श्री हरबंस लाल नेगी, निदेशक को संसदीय कार्य मंत्रालय में दिनांक 18.07.2014 (पूर्वाहन) से रु.10,000/- के ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड-4 (रु. 37,400—67,000/-) में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

ए. मनोहरन, उप सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 सितम्बर 2014

सं.-13017/02/2014-अ.भा.से.(I)—केन्द्र सरकार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तमिलनाडु तथा राजस्थान सरकारों की सहमति से एतद्वारा श्री शंकर लाल कुमावत, भारतीय प्रशासनिक सेवा (टी. एन. 10) की व्यक्तिगत कारणों के आधार पर तमिलनाडु संवर्ग से राजस्थान संवर्ग में तीन वर्षों की अवधि के लिए अंतर्संवर्गीय प्रतिनियुक्ति को अनुमोदन प्रदान करती है।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

संख्या-13017/33/2014-अ.भा.से.(I)---- झारखण्ड तथा मध्य प्रदेश सरकारों की सहमति से केंद्र सरकार भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा सुश्री हर्षिका सिंह, भारतीय प्रशासनिक सेवा (जेएच:12) को उनके श्री रोहित सिंह, भारतीय प्रशासनिक सेवा (एमपी:12) से विवाह करने के आधार पर झारखण्ड संवर्ग से मध्य प्रदेश संवर्ग में स्थानांतरित करती है।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

कार्यालय प्रोटोकॉल उप प्रमुख (एफ)

नई दिल्ली, दिनांक 12 सितंबर 2014

संख्या डी111/460/सीएफ-09/2014----भारत के राष्ट्रपति मुंबई में श्री लंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य के प्रधान कौंसल के रूप में मिस सरोजा सिरिसेना की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता प्रदान करते हैं।

मिस सरोजा सिरिसेना के कौंसली क्षेत्राधिकार में महाराष्ट्र, गोवा तथा गुजरात राज्य होंगे, जिसका केंद्र मुंबई होगा।

संजीव खंडूरी, प्रोटोकॉल उप प्रमुख (एफ)

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 सितंबर 2014

सं. 11012/1/2013-आईईएस----राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा, 2013 में सफल रहे निम्नलिखित अभ्यर्थियों को, यथासंशोधित भारतीय आर्थिक सेवा नियम, 2008 के नियम 6(क) के अंतर्गत, भारतीय आर्थिक सेवा में कनिष्ठ समय मान में पे बैंड - 3 : ₹ 15,600--39,100/- रुपए जमा ग्रेड पे: 5,400/-रुपए के वेतनमान में उनके नाम के सामने वर्णित तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर नियुक्त करते हैं :--

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1.	सुश्री अपराजिता सिंह	01-09-2014 (पूर्वाह्न)
2.	सुश्री तुलसी प्रिया राजकुमारी	01-09-2014 (पूर्वाह्न)
3.	सुश्री नीतिका पंत	01-09-2014 (पूर्वाह्न)
4.	सुश्री प्रीति	01-09-2014 (पूर्वाह्न)
5.	श्री अरूण सी. अदात्ते	01-09-2014 (पूर्वाह्न)
6.	सुश्री ज्योति शर्मा	01-09-2014 (पूर्वाह्न)
7.	सुश्री दीपिका श्रीवास्तव	01-09-2014 (पूर्वाह्न)
8.	सुश्री गुरविंदर कौर	01-09-2014 (पूर्वाह्न)
9.	श्री अखिलेश कुमार	01-09-2014 (पूर्वाह्न)
10.	सुश्री शमीम आरा	01-09-2014 (पूर्वाह्न)
11.	श्री आर्य बी.के.	01-09-2014 (पूर्वाह्न)
12.	श्री राजकुमार	01-09-2014 (पूर्वाह्न)
13.	श्री राकेश कुमार	01-09-2014 (पूर्वाह्न)
14.	श्री अभिषेक आनन्द	01-09-2014 (पूर्वाह्न)
15.	श्री मोहित वर्मा	01-09-2014 (पूर्वाह्न)
16.	श्री विक्रम नाथ	01-09-2014 (पूर्वाह्न)
17.	सुश्री कीर्ति	01-09-2014 (पूर्वाह्न)
18.	सुश्री खाई लीशिंगम	01-09-2014 (पूर्वाह्न)
19.	श्री अबू हुजाइफा	01-09-2014 (पूर्वाह्न)

सुधीर श्याम, निदेशक (आईईएस)

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 मई 2014

सं. ए-19011/04/2014 मा.सं. II—राष्ट्रपति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 05.05.2014 के आदेश सं. 2/11/2014-ईओ (एसएम-I) के अनुसरण में श्री वी. के. सुब्बुराज, भा. प्र. से. (टी एन:80), की रिक्ति के स्थान पर श्री राजीव यादव, भा.प्र.से. (एएम:81) को दिनांक 15.05.2014 (पूर्वाह्न) से उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार के पद पर नियुक्त करते हैं।

यशपाल अरोड़ा, अवर सचिव

दिनांक 26 मई 2014

सं.ए-19011/5/2014-एचआर-II.—राष्ट्रपति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 28.4.2014 के का.जा.सं 2/5/2014-इ.ओ.(एसएम-I) के अनुसरण में दिनांक 22.5.2014 को श्री एस.सी.गुप्ता, आईएस (एसके:86) का कार्यकाल को पूरा होने पर श्री सुशील कुमार लोहानी, आईएस (ओआर:95) को दिनांक 22-05-2014 (अपराहन) से पे बैंड 37,400—67,000 रुपए (पीबी-4), ग्रेड-पे 10,000/- रुपए में 15.11.2016 तक अथवा अगले आदेशों, जो भी पहले हो, तक उर्वरक विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

यशपाल अरोड़ा, अवर सचिव

दिनांक 5 अगस्त 2014

सं.ए-19011/08/2014 मा.सं.11.----राष्ट्रपति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं. 6/25/2014-ईओ (एसएम-I) दिनांक 12.07.2014 के अनुसरण में श्री जुगल किशोर महापात्र, भारतीय प्रशासनिक सेवा (ओ.आर:79), को 01.08.2014 (पूर्वाहन) से उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

यशपाल अरोड़ा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 30 जून 2014

सं.ए-23011/15/2013-एच.आर.11.----राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25.09.2013 के का.जा.सं.6/2/2013-सीएस-I (एस)-I के अनुसरण में तथा डीओपीटी के ऊपर उल्लिखित का.जा.में निहित शर्तों के अध्यक्षीन वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर एफआईसीसी में लेखा अधिकारी के रूप में कार्यरत श्री प्रवीन की रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त संवर्ग में 25.02.2014 (अपराहन) (जिस तारीख से उनके निकटतम कनिष्ठ श्री एम.त्रिपाठी को उर्वरक विभाग में अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया) से 4800/- रुपए के ग्रेड-पे सहित पे बैंड-2 (रु.9300-34800/-) में वर्ष 2009 की प्रवर सूची में काडर बाह्य पद रहने के दौरान अनुभाग अधिकारी के रूप में प्रोफार्मा प्रोन्नति प्रदान करते हैं।

2. यह नियुक्ति निम्नलिखित न्यायालय मामलों के नतीजों और किसी भी संबंधित मामलों में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अन्य किसी आदेश के अनुसार होगी:

- i. श्री राजीव आर एवं अन्य बनाम भारत संघ द्वारा कैट, नई दिल्ली में दायर ओ.ए सं. 4135/2012, एम.ए सं. 3477/2012.
- ii. श्री एम.आर.मीना एवं अन्य बनाम भारत संघ द्वारा कैट, नई दिल्ली के दायर ओ.ए सं. 4082/2012, एम.ए सं.3448/2012
- iii. श्री शांति लाल बाउरासी एवं अन्य बनाम भारत सरकार द्वारा कैट, नई दिल्ली में दायर ओ.ए सं. 4141/2012.
- iv. श्री सौरांशु सिन्हा एवं अन्य बनाम यूओपीआई एवं अन्य द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर डब्ल्यूपी (सी). 2735/2013.

संजय श्रीवास्तव, अवर सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 अगस्त 2014

सं. 19011/17/2012-स्थापना----कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 04-07-2014 के का.जा.सं. 5/6/2013-सीएस.आई(यू) के माध्यम से जारी वर्ष 2012 के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के अवर सचिव (ग्रेड-I) की चयन

सूची में उनके नामों के समावेश के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति, जनजातीय कार्य मंत्रालय में निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 01-07-2012 से नियमित आधार पर अवर सचिव (ग्रेड-I) के रूप में नियुक्त करते हैं।

क्र.सं.	नाम	सीएसएल संख्या
1.	श्री के. चन्द्रसेकर	7408
2.	श्री उत्तम कुमार कर	7445
3.	श्री राजेन्द्र प्रसाद	7677

राजेन्द्र प्रसाद, अवर सचिव

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 12 सितम्बर 2014

सं० ए-32014/1/2013-स्था. राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25 सितम्बर, 2013 के का० ज्ञा० सं० 6/2/2013-सीएस-I(एस)-III के द्वारा अधिकारी ग्रेड वर्ष 2011 की चयन सूची के विचारार्थ जोन में श्रीमती सुनीता सजवान का नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, केन्द्रीय सचिवालय सेवा में श्रीमती सुनीता सजवान को दिनांक 2 सितम्बर, 2014 (पूर्वाह्न) से वेतन बैंड-2 (9,300-34,800/- रुपये) तथा 4,800/- रुपये के ग्रेड वेतन में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

मैत्रेयी राय, उप सचिव

.....

सं. ए-32014/1/2013-स्था.—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 के आदेश सं० 6/10/2013-सीएस-I (एस) के अनुसरण में, श्री रमेश चन्द्र को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में दिनांक 4 सितम्बर, 2014 (पूर्वाह्न) से वेतन बैंड-2 (9,300-34,800/- रुपये) तथा 4,800/- रुपये के ग्रेड वेतन में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

मैत्रेयी राय, उप सचिव

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 2 सितम्बर 2014

सं. ई(जी.पी.)2012/3/5(कार्मिक)—राष्ट्रपति महोदय, भारतीय रेल के कार्मिक विभाग के निम्नलिखित 5 ग्रुप-बी अधिकारियों जो कि निम्न दर्शाए गए रेलों से हैं की 03.09.2013 से भारतीय रेल कार्मिक सेवा (आई. आर.पी. एस.) के ग्रुप-ए/कनिष्ठ वेतनमान में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2012-2013 के लिए पैनल

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	रेलवे
1.	श्री के. फिलू नायक (अ.ज.जा.)	द.म.रे. (अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
2.	श्रीमती शांती राजा भोज (अ.जा.)	द.रे. (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

2013-14 के लिए पैनल

1.	श्रीमती लखनी कुमारी (अ.ज.जा.)	पू.म. रे.
2.	श्री पी. आर. विश्वनाथन	स.डि.का.
3.	श्री विजय कुमार (अ.जा.)	पू.म. रे. (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

2. अतः, दिनांक 18.11.2013 की समसंख्यक अधिसूचना द्वारा श्री के. फिलू नायक (अ.ज.जा) (द.म.रे.) तथा श्रीमती शांती राजा भोज (अ.जा.) (द.रे.) की दिनांक 03.09.2013 (पैनल वर्ष 2013-14) से भारतीय रेल कार्मिक सेवा (आई.आर.पी.एस.) के ग्रुप-ए/कनिष्ठ वेतनमान में की गई नियुक्ति को रद्द किया जाता है।

सुमन शर्मा, निदेशक, स्था. (राज.पदो.)
(रेलवे बोर्ड)

दिनांक 15 सितम्बर 2014

सं.ई (जीपी) 2012/3/3----राष्ट्रपति महोदय भारतीय रेलों के बिजली इंजीनियरिंग विभाग के निम्नलिखित 100 ग्रुप-बी अधिकारियों, जो कि निम्न दर्शाए गए रेलों से हैं, की 11.06.2014 से भारतीय रेल बिजली इंजीनियरिंग सेवा (आई.आर.एस.ई.ई.) के ग्रुप-ए/कनिष्ठ वेतनमान में सहर्ष नियुक्ति करते हैं।

2012-13 के लिए पैनल

क्र.सं.	नाम	रेलवे
1.	जी.सी. घरामी (अ.जा.)	द.पू.म.रे.
2.	नरेन्द्र के. अग्रवाल	म.रे.
3.	के.वी. राघावुलु	द.म.रे.
4.	मिलिंद पोलके	म.रे.
5.	भन्जा प्रसन्ना के.	म.रे.
6.	राम दास कुशवाहा	प.म.रे.
7.	वर्मा नीरज कुमार	म.रे.
8.	ओके प्रदीप वी.	म.रे.
9.	महेश कुमार चावहन	म.रे.
10.	जगनन्दन प्रसाद	म.रे.
11.	एन.डी. तुरकर	म.रे.
12.	पी.के. स्वामी	प.म.रे.
13.	वी.के.सिंह	अ.अ.मा.सं
14.	समीर मजुमदार	पू.रे.
15.	शंकर राँय (अ.जा.)	पू.रे.
16.	प्रभात कुमार	पू.म.रे.
17.	आर.बी. प्रसाद	पू.म.रे.
18.	अनिरंजन प्रसाद	द.पू.म.रे.
19.	पी.के. सराफ	द.पू.म.रे.
20.	अमरजीत सिंह	उ.रे.

क्र.सं.	नाम	रेलवे	
21.	ए.के. सिन्हा	पूर्वो.रे.	
22.	आर.एन.सिंह	पूर्वो.रे.	
23.	वाई.आर. पोफली	द.पू.म.रे.	
24.	ए.के. पुस्टी	द.पू.रे.	
25.	सी.सी. बंदोपाध्याय	द.पू.रे.	
26.	एन.के. मंडल	द.पू.रे.	
27.	जे.पी. सिंह	पू.म.रे.	
28.	ए.के. सिंह	चि.रे.का.	
29.	जे. पलाटा सिंह	चि.रे.का.	
30.	एस.पी. पात्रा	चि.रे.का.	
31.	अखिलेश कुमार	पू.म.रे.	
32.	अपूर्वा मुखर्जी	पू.रे.	
33.	डी. सौन्दाराजन (अ.जा.)	द.प.रे.	(अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
34.	अशोक कुमार (अ.जा.)	प.म.रे.	(अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
35.	यू.के. बिस्वास (अ.जा.)	म.रे.	(अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
36.	राम अवतार (अ.जा.)	उ.रे.	(अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
37.	भजन लाल (अ.जा.)	पू.म.रे.	(अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
38.	रामानंद बारोई (अ.जा.)	पूर्वो.सी.रे.	(अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
39.	मुकुंदा डेका (अ.जा.)	पूर्वो.सी.रे.	(अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
40.	रघुनाथ सिंह (अ.जा.)	उ.म.रे.	(अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
41.	योगेन्द्र कोराह (अ.ज.जा.)	पू.रे.	(अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
42.	मनीष कुन्दर (अ.ज.जा.)	द.पू.म.रे.	(अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
43.	शिव राम मीना (अ.ज.जा.)	उ.प.रे.	(अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
44.	सी. सिंग (अ.ज.जा.)	द.पू.रे.	(अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
45.	सौविक बनर्जी	पू.रे.	
46.	गोपीनाथ हल्दर	पू.रे.	
47.	असित बरन साह	पू.रे.	
48.	वी. पाराशर	द.पू.म.रे.	
49.	सुरजीत सिंह	आर.सी.एफ	

क्र.सं.	नाम	रेलवे
2013-14 के लिए पैनल		
1.	के. सुर्यानारायणा	द.पू.म.रे.
2.	उमेश कुमार	पू.म.रे.
3.	विपिन धमान्दा	उ.रे.
4.	हरमीत सिंह सूद	म.रे.
5.	हरेन्द्र कुमार शर्मा	उ.रे.
6.	अवनीश कुमार गोयल	उ.रे.
7.	एन. दत्त	द.पू. रे.
8.	चक्की लाल	उ.रे.
9.	के. चक्रवर्ती	द.पू.रे.
10.	यादव चन्द्रशेखर	प.रे.
11.	दिगोजु सत्यनारायन	प.रे.
12.	विज एम.पी.	प.रे.
13.	अरुणज्योति साहू	पू.तट.रे.
14.	एस.के. श्रीवास्तव	अ.अ.मा.सं
15.	संजय मनोरिया	प.म.रे.
16.	पद्मनाभन एम.	प.म.रे.
17.	संजय तिवारी	प.म.रे.
18.	प्रेम चंद	प.म.रे.
19.	एस.के. श्रीवास्तव	प.म.रे.
20.	श्रीकुमारन के.	द.रे.
21.	चार्ल्स अरोकियासामी एस.	द.रे.
22.	अबुबेकर एम.	द.रे.
23.	जॉन अरूल डोस टी.	द.रे.
24.	प्रसाद वी.वी.एस.आर.के.	द.रे.
25.	ए.आर. मिश्रा	म.रे.
26.	जी. श्रीनिवासुलु	द.म.रे.
27.	बी.के. मिश्रा	उ.म.रे.
28.	मुकेश कुमार	उ.रे.
29.	मंगल सिंह	उ.रे.

क्र.सं.	नाम	रेलवे
30.	अनिल कुमार श्रीवास्तव	उ.रे.
31.	मनोज कुमार अग्रवाल	उ.रे.
32.	सुखबीर सिंह	आर.सी.एफ.
33.	पी.के. प्रधान	पू.तट.रे.
34.	ए.पी.रंगा राव	पू.तट.रे.
35.	ए.पी. बारिक	पू.तट.रे;
36.	आर.के. समल	पू.तट.रे.
37.	एस.के. राउत	पू.तट.रे.
38.	जयराम साहू	पू.तट.रे.
39.	रमेश चन्द्र (अ.जा.)	उ.प.रे. (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
40.	बिप्लव कु. विश्वास (अ.जा.)	पू.रे. (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
41.	संतोष कुमार (अ.जा.)	अ.अ.मा.स. (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
42.	सुशील कुमार (अ.जा.)	उ.रे. (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
43.	जे. अन्जैया (अ.जा.)	द.म.रे. (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
44.	वी.जी.विजेन्द्र कुमार (अ.जा.)	द.म.रे. (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
45.	एन. राजेन्द्र कुमार (अ.जा.)	द.म.रे. (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
46.	गणेश प्रधान (अ.ज.जा.)	पू.तट रे. (अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
47.	भाभोर के.के. (अ.ज.जा.)	प.रे. (अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
48.	एम आर मोहन राजू (अ.ज.जा.)	रे.प.का. (अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
49.	शशि कांता मंडल (अ.ज.जा.)	पू.रे. (अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
50.	देबेन्द्र सिंह	पू.म.रे.
51.	शेष नाथ राय	पू.म.रे.

2. उपर्युक्त अधिकारियों की नियुक्ति श्री बी.के.मिश्रा के द्वारा कैट/इलाहाबाद में दायर की गई याचिका सं. 822/2012 के परिणाम के अध्यधीन की जाती है।

सुमन शर्मा, निदेशक, स्था. (राज.पदो.)
(रेलवे बोर्ड)

MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

New Delhi, the 20th June 2014

No. F. 3(3)/2014-Admn.—The President is pleased to appoint Dr. B.V.R.C. Purushottam, IAS (UL: 2004) as Private Secretary to the Minister of Parliamentary Affairs (Sh. M. Venkaiah Naidu) (in PB-3 Rs. 15,600—39,100 + GP 7,600/-) at the level of Deputy Secretary w.e.f. 20.6.2014.

2. This appointment is for a period of five years or on co-terminus basis with the Minister or till he ceases to function as Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest.

RAMESHWAR PRASAD, Under Secretary

New Delhi-110001, the 18th July 2014

No. 3(6)/2012-Admn.—The President is pleased to appoint Shri H. L. Negi, Director as Joint Secretary in the Ministry of Parliamentary Affairs in Pay Band-4 (₹. 37,400—67,000/-) with Grade Pay of ₹. 10,000/- with effect from 18.07.2014 (FN).

A. MANOHARAN, Deputy Secretary

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 26th August 2014

No. 13017/02/2014-AIS(I)—In exercise of the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the Government of Tamil Nadu and the Government of Rajasthan the Central Govt. hereby accords approval for inter cadre deputation of Mr Shankar Lal Kumawat, IAS (TN:10) from Tamil Nadu cadre to Rajasthan cadre for a period of 3 years on personal grounds.

S. S. SHUKLA, Under Secretary

The 27th August 2014

No.13017/33/2014-AIS-I—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, and with the concurrence of the Governments of Jharkhand and Madhya Pradesh, the Central Govt. hereby transfers Ms Harshika Singh, IAS (JH:12) from Jharkhand cadre to Madhya Pradesh cadre on grounds of her marriage to Shri Rohit Singh, IAS (MP:12).

S. S. SHUKLA, Under Secretary

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

OFFICE OF DEPUTY CHIEF PROTOCOL (F)

New Delhi, the 12th September 2014

No. D-III/460/CF-09/2014—The President of India is pleased to recognise the appointment of Ms. Saroja Sirisena as Consul General of Democratic Socialist Republic of Sri Lanka in Mumbai with immediate effect.

The consular jurisdiction of Ms. Saroja Sirisena comprises the States of Maharashtra, Goa and Gujarat.

SANJEEV KHANDURI, Deputy Chief of Protocol (F)

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 18th September 2014

No. 11012/1/2013-IES—The President is pleased to appoint the following candidates who were successful in the Indian Economic Service Examination 2013 conducted by the Union Public Service Commission, to the Indian Economic Service in the Junior Time Scale in the pay scale of Pay Band-3: ₹. 15,600—39,100/- plus Grade pay: ₹. 5,400/-, under Rule

6 (a) of the IES Rules 2008, as amended, on probation for a period of two years with effect from the date shown against their names :—

S. No.	Name	Date of Joining
1.	Ms. Aparajita Singh	01.09.2014 (F/N)
2.	Ms. Tulsipriya Rajkumari	01.09.2014 (F/N)
3.	Ms. Nitika Pant	01.09.2014 (F/N)
4.	Ms. Preeti	01.09.2014 (F/N)
5.	Shri Arun C Adatte	01.09.2014 (F/N)
6.	Ms. Jyoti Sharma	01.09.2014 (F/N)
7.	Ms. Deepika Srivastava	01.09.2014 (F/N)
8.	Ms. Gurvinder Kaur	01.09.2014 (F/N)
9.	Shri Akhilesh Kumar	01.09.2014 (F/N)
10.	Ms. Shamim Ara	01.09.2014 (F/N)
11.	Mr. Arya B K	01.09.2014 (F/N)
12.	Shri Raj Kumar	01.09.2014 (F/N)
13.	Shri Rakesh Kumar	01.09.2014 (F/N)
14.	Shri Abhishek Anand	01.09.2014 (F/N)
15.	Shri Mohit Verma	01.09.2014 (F/N)
16.	Shri Bikram Nath	01.09.2014 (F/N)
17.	Ms. Kirti	01.09.2014 (F/N)
18.	Ms. Khayi Leishingam	01.09.2014 (F/N)
19.	Shri Abu Huzaifa	01.09.2014 (F/N)

SUDHIR SHYAM, Director (IES)

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS

(DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

New Delhi, the 16th May 2014

No. A-19011/04/2014-HR-II.—In pursuance of Department of Personnel and Training's Order No. 2/11/2014-EO (SM.I) dated 05.05.2014, the President is pleased to appoint Shri Rajiv Yadav, IAS (AM:81) as Additional Secretary and Financial Adviser in the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers w.e.f. 15.05.2014 (FN) against the vacancy of Shri V. K. Subburaj, IAS (TN:80).

YASHPAL ARORA, Under Secretary

The 26th May 2014

No. A-19011/05/2014-HR-II.—In pursuance of Department of Personnel and Training's Order No. 2/5/2014-EO (SM.I) dated 28.04.2014, the President is pleased to appoint Shri Sushil Kumar Lohani, IAS (OR:95) to the post of Joint Secretary in the Department of Fertilizers in the pay band of Rs. 37,400 – 67,000/- (PB-4) plus the Grade Pay of Rs. 10,000/- w.e.f. 22-05-2014(A/N) and upto 15-11-2016, or until further orders, whichever is earlier, vice Shri S. C. Gupta, IAS (SK:86), consequent upon completion of his tenure on 22-05-2014.

YASHPAL ARORA, Under Secretary

The 5th August 2014

No. A-19011/08/2014-HR-II.—In pursuance of Department of Personnel and Training's Order No. 6/25/2014-EO (SM.I) dated 12.07.2014, the President is pleased to appoint Shri Jugal Kishore Mohapatra, IAS (OR:79) to the post of Secretary in the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers w.e.f. 01-08-2014 (F/N).

YASHPAL ARORA, Under Secretary

New Delhi, the 30th June 2014

No. A-23011/15/2013-HR-II.—In pursuance of the DoPT's OM No. 6/2/2013-CS-I (S) – I dated 25.09.2013, the President is pleased to grant proforma promotion to Shri Parveen, presently working as Accounts Officer in FICC on deputation basis, as Section Officer in Select List of the Year 2009 in Pay Band-2 (Rs. 9,300--34,800/-) with Grade Pay of Rs. 4,800/- in the combined cadre of the Ministry of Chemicals & Fertilizers w.e.f. 25.02.2014 (A/N) (date from which his immediate junior, Shri M. Tripathi has been appointed as Section Officer in the Department of Fertilizers), while continuing in the ex-cadre post and subject to the conditions contained in DoPT's aforesaid OM.

2. The appointment shall be subject to the outcome of the following court cases and also as per any other order by any Competent Court in any of the concerned matters:

- i. O.A. No. 4135/2012, M.A. No. 3477/2012, filed by Shri Rajeev R and Ors Vs. UOI in CAT, New Delhi
- ii. O.A. No. 4802/2012, M.A. No. 3448/2012, filed by Shri M. R. Meena and Ors Vs. UOI in CAT, New Delhi
- iii. O.A. No. 4141/2012, filed by Shri Shanti Lal Bourasi and Ors Vs. UOI in CAT, New Delhi
- iv. WP (C) No. 2735/2013 filed by Shri Sauranshu Sinha and Ors Vs. UOPI and Ors. in the High Court of Delhi

SANJAY SRIVASTAVA, Under Secretary

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 14th August 2014

No.19011/17/2012-Estt.—Consequent upon the inclusion of their names in the Select List of Under Secretary(Grade-I) of CSS for the year 2012 issued vide DOP&T's O.M. No. 5/6/2013-CS.I(U) dated 04.07.2014, the President is pleased to appoint the following Officers in the Ministry of Tribal Affairs as Under Secretary (Grade-I) on regular basis w.e.f. 01.07.2012 :—

Sl. No.	Name	CSL No.
1	Shri K.Chandrasekar	7408
2	Shri Uttam Kumar Kar	7445
3	Shri Rajendra Prasad	7677

RAJENDRA PRASAD, Under Secretary

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

New Delhi-110003, the 12th September 2014

No. A-32014/1/2013-Estt.—Consequent upon inclusion of the name of Smt. Sunita Sajwan in the zone of consideration for inclusion in Select List of Section Officers' Grade for the year 2011, vide Department of Personnel & Training's OM No. 6/2/2013-CS-I(S)-III dated 25th September, 2013, the President is pleased to appoint Smt. Sunita Sajwan as Section Officer of Central Secretariat Service in the Ministry of Minority Affairs, in the Pay Band PB-2 (Rs. 9,300--34,800/-) plus Grade Pay Rs. 4,800/- with effect from 2nd September, 2014 (F/N).

MAITREYEE ROY, Deputy Secretary

No. A-32014/1/2013-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's OM No. 6/10/2013-CS.I(S) dated 31st December, 2013, the President is pleased to appoint Shri Ramesh Chander as Section Officer of Central Secretariat Service on ad-hoc basis in the Ministry of Minority Affairs, in the Pay Band PB-2 (Rs. 9,300--34,800/-) plus Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from 4th September, 2014 (F/N).

MAITREYEE ROY, Deputy Secretary

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 2nd September 2014

No. E(GP)2012/3/5(Personnel)—The President is pleased to appoint the under-mentioned 5 Group 'B' officers of Personnel Department of Indian Railways belonging to different Zonal Railways as mentioned against each, to Group 'A'/Junior Scale of Indian Railway Personnel Service (IRPS) with effect from 03.09.2013 :--

PANEL FOR 2012-13

S.No.	Name of officer	Railway
1.	Shri K. Philu Naik (ST)	SCR Promoted against ST vacancy
2.	Smt. Shanti Raja Bhoj (SC)	SR Promoted against SC vacancy

PANEL FOR 2013-14

1.	Smt. Lakhni Kumari (ST)	ECR
2.	Shri P.R. Vishwanathan	ICF
3.	Shri Vijay Kumar (SC)	ECR Promoted against SC vacancy

2. Accordingly, the appointment of Shri K. Philu Naik (ST) of SCR and Smt. Shanti Raja Bhoj (SC) of SR to Group 'A'/Junior Scale of IRPS w.e.f. 03.09.2013 in the panel of 2013-14 ordered earlier vide notification of even number dated 18.11.2013 is hereby cancelled.

SUMAN SHARMA, Director Estt.(GP)
(Railway Board)

The 15th September 2014

No. E(GP)2012/3/3—The President is pleased to appoint the undermentioned 100 Group 'B' Officers of Electrical Engineering Department of Indian Railways belonging to the Railways as mentioned against each, to Group 'A'/Junior Scale of Indian Railway Service of Electrical Engineers (IRSEE) with effect from 11.06.2014 :—

PANEL FOR 2012-13

S.No.	Name	Railway
1	G.C. Gharami (SC)	SECR
2	Narendra K. Agrawal	CR
3	K.V. Raghavulu	SCR
4	Milind Polke	CR
5	Bhanja Prasana K.	CR
6	Ram Das Kushwaha	WCR
7	Verma Neeraj Kumar	CR
8	Oke Pradeep V.	CR
9	Mahesh Kumar Chavan	CR
10	Jagnandan Prasad	CR
11	N.D. Turkar	CR
12	P.K.Swami	WCR
13	V.K.Singh	RDSO
14	Samir Majumder	ER
15	Sankar Roy (SC)	ER
16	Prabhat Kumar	ECR
17	R.B.Prasad	ECR
18	Aniranjana Prasad	SECR
19	P.K. Saraf	SECR
20	Amarjeet Singh	NR

S.No.	Name	Railway	
21	A.K. Sinha	NER	
22	R.N. Singh	NER	
23	Y.R. Pophali	SECR	
24	A.K. Prusty	SER	
25	C.C. Bandopadhyay	SER	
26	N.K. Mandal	SER	
27	J.P.Singh	ECR	
28	A.K. Singh	CLW	
29	J.Palata Singh	CLW	
30	S.P. Patra	CLW	
31	Akhilesh Kumar	ECR	
32	Apurba Mukherjee	ER	
33	D.Saundarajan (SC)	SWR	Promoted against SC vacancy
34	Ashok Kumar (SC)	WCR	Promoted against SC vacancy
35	U.K. Biswas (SC)	CR	Promoted against SC vacancy
36	Ram Avtar (SC)	NR	Promoted against SC vacancy
37	Bhajan Lal (SC)	ECR	Promoted against SC vacancy
38	Rama Nanda Baroi (SC)	NFR	Promoted against SC vacancy
39	Mukunda Deka (SC)	NFR	Promoted against SC vacancy
40	Raghunath Singh (SC)	NCR	Promoted against SC vacancy
41	Yogendra Korah (ST)	ER	Promoted against ST vacancy
42	Manish Kunder (ST)	SECR	Promoted against ST vacancy
43	Shiv Ram Meena (ST)	NWR	Promoted against ST vacancy
44	C.Sing(ST)	SER	Promoted against ST vacancy
45	Souvik Banerjee	ER	
46	Gopinath Halder	ER	
47	Asit Baran Saha	ER	
48	V. Parashar	SECR	
49	Surjit Singh	RCF	
<u>PANEL FOR 2013-14</u>			
1	K.Suryanarayana	SECR	
2	Umesh Kumar	ECR	
3	Vipin Dhamanda	NR	
4	Harmeet Singh Sood	CR	
5	Harendar Kumar Sharma	NR	
6	Avnish Kumar Goel	NR	
7	N. Dutt	SER	

S.No.	Name	Railway	
8	Chakki Lal	NR	
9	K. Chakraborty	SER	
10	Yadav Chandrashekhar	WR	
11	Deegoju Satyanarayan	WR	
12	Vij M.P.	WR	
13	Arunjyoti Sahoo	ECOR	
14	S.K. Srivastava	RDSO	
15	Sanjay Manoria	WCR	
16	Padmanabhan M	WCR	
17	Sanjay Tiwari	WCR	
18	Prem Chand	WCR	
19	S.K.Shrivastava	WCR	
20	Sreekumaran K.	SR	
21	Charles Arokiasamy.S	SR	
22	Abubekkar M.	SR	
23	John Arul Doss T.	SR	
24	Prasad V.V.S.R.K.	SR	
25	A.R. Mishra	CR	
26	G. Sreenivasulu	SCR	
27	B.K. Mishra	NCR	
28	Mukesh Kumar	NR	
29	Mangal Singh	NR	
30	Anil Kumar Srivastava	NR	
31	Manoj Kumar Agarwal	NR	
32	Sukhbir Singh	RCF	
33	P.K. Pradhan	ECOR	
34	A.P. Ranga Rao	ECOR	
35	A.P. Barik	ECOR	
36	R.K. Samal	ECOR	
37	S.K. Rout	ECOR	
38	Jayaram Sahoo	ECOR	
39	Ramesh Chandra(SC)	NWR	Promoted against SC vacancy
40	Biplab Kr. Biswas(SC)	ER	Promoted against SC vacancy
41	Santosh Kumar(SC)	RDSO	Promoted against SC vacancy
42	Sushil Kumar(SC)	NR	Promoted against SC vacancy
43	J. Anjaiah(SC)	SCR	Promoted against SC vacancy
44	V.G. Vijayendra Kumar (SC)	SCR	Promoted against SC vacancy
45	N. Rajendra Kumar (SC)	SCR	Promoted against SC vacancy
46	Ganesh Pradhan(ST)	ECOR	Promoted against ST vacancy

S.No.	Name	Railway	
47	Bhabhor K.K.(ST)	WR	Promoted against ST vacancy
48	M R Mohan Raju(ST)	RWF	Promoted against ST vacancy
49	Shashi Kanta Mondal(ST)	ER	Promoted against ST vacancy
50	Debendra Singh	ECR	
51	Shesh Nath Rai	ECR	

2. The appointment of the above officers is, however, subject to the final outcome of OA No. 822/2012 in Hon'ble Central Administrative Tribunal, Allahabad filed by Shri B. K. Mishra.

SUMAN SHARMA, Director, Estt.(GP)
(Railway Board)

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014
www.dop.nic.in